



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 24, 2018/ श्रावण 2, 1940

No. 250]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 24, 2018/SHRAVANA 2, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2018

विषय: व्यापारियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) प्रोत्साहन योजना की वापसी।

फा. सं. डीपीडी-12/13/2017-डीपीडी-एमईआईटीवाई.—जबकि, केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12 (84)/2017-डीपीडी के जरिए “व्यापारियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक योजना” नामक एक योजना अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य इसके अंगीकरण को प्रोत्साहन देकर व्यापारियों के बीच भीम-यूपीआई के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा भीम-यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए लेनदेन को प्रोत्साहित करना है।

जबकि, केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 14 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या 12/13/2017-डीपीडी के जरिए योजना को संशोधित किया और इसके प्रचालन को 31 मार्च, 2018 तक विस्तारित किया।

जबकि, केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 26 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना संख्या 12/13/2017-डीपीडी-एमईआईटीवाई के जरिए “व्यापारियों के लिए भीम कैशबैक योजना” नामक योजना को संशोधित किया है।

और जबकि, केन्द्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है और योजना को एतद द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी रूप से वापस लिया गया है।

विषय: व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना का संशोधन

जबकि, केन्द्र सरकार ने दिनांक 5 जून, 2017 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी के जरिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) नामक एक योजना अधिसूचित की है, जिसका उद्देश्य भीम के मौजूदा उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहन देना है और नए उपयोगकर्ताओं को भीम प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि नए उपयोगकर्ताओं को भीम का प्रयोग करते हुए लेन-देन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

जबकि, केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 14 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या 12/13/2017-डीपीडी के जरिए योजना को संशोधित किया और इसके प्रचालन को 31 मार्च, 2018 तक विस्तारित किया।

जबकि, केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 26 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना संख्या 12/13/2017-डीपीडी- एमईआईटीवाई के जरिए “व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना” नामक योजना को संशोधित किया है।

और जबकि केन्द्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है।

अब केन्द्र सरकार एतद्वारा “व्यक्तियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) रेफरल बोनस योजना (जिसे अब व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना के तौर पर नामित किया गया है) को जारी रखने और संशोधित करने” नामक विषय के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 26 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना संख्या 12/13/2017-डीपीडी-एमईआईटीवाई में निम्नलिखित संशोधन करती है।

1. अनुच्छेद 1, 2 और 3 में प्रावधानों के लिए, उपर्युक्त अनुच्छेदों में निम्नलिखित प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया गया है:-

अनुच्छेद 1.4: डिजिटल भुगतानों के संवर्धन में, प्रोत्साहन योजनाएं नई प्रौद्योगिकियों, प्लेटफॉर्मों, एप्स को अपनाने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग में आती हैं और यह प्रभावी भी साबित हुई है। व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना को भीम एप्प पर नए उपयोगकर्ताओं को ऑनबोर्ड करने के लिए प्रोत्साहन देने और भीम आधारित लेनदेनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। योजना के उद्देश्य हैं:-

- भीम एप्प को डाउनलोड, इंस्टॉल करने तथा इसे अपने बैंक खातों के साथ जोड़ने के साथ इसके प्रयोग द्वारा वित्तीय लेनदेन करने वाले प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ाना।
 - भीम एप्प का उपयोग करते हुए लेनदेनों की संख्या को बढ़ाना।
2. अनुच्छेद :2.1 इस योजना के तहत भीम एप्प को ऑनबोर्ड करने तथा न्यूनतम दस विशिष्ट वित्तीय लेनदेन करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। इस योजना का कार्यक्षेत्र नए भीम एप्प उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित है। **योजना 4 जुलाई, 2018 से लागू की जाएगी और 31 मार्च, 2019 तक मान्य रहेगी।** सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर किसी भी समय योजना की समीक्षा की जा सकती है।

2.3 प्रोत्साहन केवल भीम एप्प के ऐसे नये उपयोगकर्ताओं को ही दिया जाएगा जो भीम एप्प को सफलतापूर्वक डाउनलोड कर उसे अपने बैंक खातों के साथ लिंक करेंगे और भीम एप्प के द्वारा सफलतापूर्वक 10 वित्तीय लेनदेन करेंगे।

2.4 प्रोत्साहन का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:-

क्र.सं.	भीम एप्प ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोत्साहन	कुल राशि (रुपए में) प्रति भीम एप्प प्रयोक्ता	शर्तें
1.	योजना अवधि अर्थात् 31 मार्च 2019 तक के दौरान डाउनलोड, इंस्टॉल और सफलतापूर्वक दस विशिष्ट लेनदेन पूर्ण करने पर नए भीम एप्प प्रयोक्ता।	150 रुपए	न्यूनतम लेनदेन मूल्य 50 रुपए होना चाहिए। प्रोत्साहन का भुगतान नए भीम एप्प प्रयोक्ता को दस विशिष्ट लेनदेन पूर्ण करने पर केवल एक बार किया जाएगा। सिर्फ विशिष्ट लेनदेन ही प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

3. पैराग्राफ 3.1 : प्रोत्साहन अर्जित करने की अर्हता :

- (क) “भीम एप्प पर ऑनबोर्डिंग हेतु प्रोत्साहन” के लिए, प्रयोक्ता को भीम एप्प डाउनलोड और इंस्टॉल तथा बैंक खाते से लिंक करना है और योजना अवधि के दौरान 50 रु. से अधिक या 50 रु. के मूल्य के 10 विशिष्ट वित्तीय लेनदेन को सफलतापूर्वक पूरा करना है। प्रोत्साहन का भुगतान योजना अवधि के दौरान सिर्फ एक बार और सिर्फ नए भीम एप्प प्रयोक्ताओं को ही किया जाएगा।

(ख) हटाया जाए।

पैराग्राफ 3.3 :

- (क) योजना के लिए भीम एप्प या *99 # से किए गए वैध अनुमोदित लेनदेनों पर ही विचार किया जाएगा।
- (ख) “विशिष्ट लेनदेन” से भीम एप्प प्रयोक्ता द्वारा किया गया पहला वित्तीय लेनदेन अभिप्रेत है, जो भीम/भीम-यूपीआई प्रयोक्ता के साथ किया जाता है।
- (ग) लेनदेनों पर प्रोत्साहन का भुगतान उस प्रयोक्ता को किया जाएगा जो “वैध वित्तीय लेनदेन” को शुरू कर रहा है।
- (घ) “वैध वित्तीय लेनदेन”, 50 रुपए या इससे अधिक की राशि और 1,00,000 रुपए से कम या इसके बराबर की धन राशि को एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में अंतरित करना।

गोपालाकृष्णन एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2018

Subject: Withdrawal of the BHIM (Bharat Interface for money) Incentive Scheme for Merchants

F.No. DPD/12/13/2017-DPD-MeitY.—WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 05th June 2017, has notified a Scheme namely ‘BHIM (Bharat Interface for Money) Cashback Scheme for Merchants’, with the objective to promote usage of BHIM-UPI amongst merchants by incentivizing its adoptions and also to encourage transactions via BHIM-UPI platform.

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No 12/13/2017-DPD dated 14th August 2017, modified and extended the operation of the scheme till 31st March 2018.

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12/13/2017-DPD-MeitY dated 26th April 2018, has modified the scheme as ‘BHIM Incentive Scheme for Merchants’.

AND WHEREAS, the Central Government has reviewed the scheme and **the scheme is hereby withdrawn with effect from 01st July 2018.**

Subject: Modification of BHIM Cashback scheme for Individuals

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 05th June 2017, has notified a Scheme namely ‘BHIM (Bharat Interface for Money) Referral Scheme for Individuals’, with the objective to incentivize the existing users of BHIM and to bring new users on BHIM platform so as to encourage new users to do transactions using BHIM.

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No 12/13/2017-DPD dated 14th August 2017, modified and extended the operation of the scheme till 31st March 2018.

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12/13/2017-DPD-MeitY dated 26th April 2018, has modified the scheme as ‘BHIM Cashback scheme for Individuals’.

AND WHEREAS, the Central Government has reviewed the scheme.

Now, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12/13/2017-DPD-MeitY dated 26th April 2018 notified under the subject namely “Continuation and modification of BHIM (Bharat Interface for Money) referral bonus scheme for individuals (Now named as BHIM Cashback scheme for Individuals)”:-

For provisions in paragraph 1, 2 & 3, the following provisions in the said paragraphs are substituted namely:-

Paragraph 1.4: In the promotion of digital payments, incentive schemes are widely used to promote adoption of the new technologies, platforms and apps and it has proven effective. The BHIM Cashback scheme for Individuals has been designed to encourage the onboarding of new users on the BHIM App and increase the usage of BHIM based transactions. The objectives of the scheme are:

- Increase the number of users downloading, installing, linking BHIM App with their bank accounts and undertaking financial transactions using BHIM App.
- Increase in the number of transactions using BHIM App.

Paragraph: 2.1 The scheme offers Incentive for Onboarding the BHIM App and undertaking minimum ten unique financial transactions. The scope of the scheme is new BHIM app users only. **The scheme will come into effect from 4th July 2018 and will be valid till 31st March 2019.** The scheme can be reviewed anytime based on the Government directions.

2.3 The incentive will be paid to the new users of the BHIM app ONLY who successfully download the BHIM app, links the BHIM app with their bank account/s and undertake ten successful financial transaction through BHIM app.

2.4 The incentive will be paid as per the following:

S. No	Incentive for onboarding the BHIM App	Total amount (in Rs.) per BHIM app user	Conditions
1.	New BHIM app user on downloading, installing and successfully completing ten unique financial transactions during the scheme duration i.e till 31 st March 2019.	Rs 150	Minimum transaction value should be Rs 50. The incentive will be paid only once per new BHIM app user who completes the ten unique transactions. Only unique transactions will be eligible for the incentive.

3. Paragraph 3.1: Qualification to earn incentives:

- (a) For “incentive for onboarding on BHIM app”, the user has to download, install and link BHIM app with the bank account/s and successfully complete ten unique financial transactions of value equal and more than Rs. 50 during the scheme duration. The incentive will paid only once during the scheme period and to the new BHIM App users only.

- (b) To be deleted

Paragraph 3.3:

- (a) Only valid approved transactions from BHIM app or *99# will be considered for the scheme.
- (b) The “unique transaction” is the first financial transaction originated by the BHIM App user and made to BHIM/BHIM-UPI users.
- (c) Incentive on the transactions will be paid to the user who is initiating the “valid financial transaction”.
- (d) “Valid financial transaction”: Money transfer from one bank account to another bank account of amount greater than or equal to Rs. 50 and less than on equal to Rs. 1,00,000.

GOPALAKRISHNAN S, Jt. Secy.